



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़ 1938 (श10)
(सं० पटना 557) पटना, शुक्रवार, 1 जुलाई 2016

सं० वन विक्रय (आरा मिल)—02/2016—2056/प०व०
पर्यावरण एवं वन विभाग

संकल्प

27 जून 2016

बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 की धारा-23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) नियमावली, 1993 बनायी गयी थी। इस नियमावली के नियम-3 (3) के तहत आरा मिल या आरा गड़ढ़ा की अनुज्ञप्ति के प्रत्येक आवेदन के साथ निर्धारित अप्रत्यर्पणीय फीस तथा नियम-3 (5) के तहत अग्रिम प्रतिभूति राशि के रूप में निर्धारित बैंक ड्राफ्ट को संलग्न करना अपेक्षित है। नियम-4 (3) के तहत अनुज्ञप्ति उस कैलेंडर वर्ष के लिए, जिसके लिए वह जारी की गयी विधिमाम्य है। नियम-6 (2) के तहत अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन फीस निर्धारित की गयी है एवं नियम-6 (4) के तहत अनुज्ञप्ति केवल एक कैलेंडर वर्ष के लिए नवीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया था।

इस नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अनुज्ञप्ति नवीकरण कराये जाने के संबंध में हो रहे कठिनाईयों एवं आरामिल संचालकों को हो रही असुविधाओं को ध्यान में रखकर विभिन्न आरामिल समितियों द्वारा अनुज्ञप्ति की अवधि को बढ़ाने हेतु समय-समय पर की गयी मांग के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) नियमावली, 1993 के नियम-3(3), 3(5), 4(3), 6(2) एवं 6(4) को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया गया है :-

1. **नियम-3(3)** —आरा मिल या आरा गड़ढ़े की अनुज्ञप्ति के प्रत्येक आवेदन के लिए अप्रत्यर्पणीय फीस क्रमशः दस हजार रुपये या एक हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा। यह राशि ऐसे वन प्रमंडल पदाधिकारी की लेखा में देय होगी जहाँ आरा मिल या आरा गड़ढ़ा पहले से संचालित किया जा रहा है

या स्थापना किये जाने के लिए प्रस्तावित है। प्रत्येक आरा मिल या आरा गड़ढा के लिए अलग-अलग आवेदन करना अपेक्षित है।

2. **नियम-3(5)** —ऐसे प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ दस हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जायेगा जो आरा मिल के लिए अग्रिम प्रतिभूति के रूप में अनुज्ञापन पदाधिकारी के पदनाम से होगा। जब अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त हो जाती है या नवीकरण नहीं किया जाता है तब इस प्रतिभूति की राशि को अनुज्ञाधारी के आवेदन पर उसे वापस कर दी जायेगी।
 3. **नियम-4(3)** —अनुज्ञप्ति जिसके लिए वह जारी की गयी की अवधि 05 वर्ष के लिए विधिमान्य होगी।
 4. **नियम-6(2)** —आरा मिल के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन फीस दस हजार होगी और आरा गड़ढे के लिए एक हजार रुपये होगी।
 5. **नियम-6(4)** —अनुज्ञप्ति पांच कैलेण्डर वर्ष के लिए नवीकृत की जाएगी।
- आदेश :-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
विवेक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 557-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>